

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016—ज्येष्ठ 6, शक 1938

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला इन्दौर

न. पा. निर्वाचन

प्रारूप-23 (संशोधित)

(नियम-74 देखिए)

निर्वाचन घोषणा सह विवरणी

नगर पालिक निगम के वार्ड क्र. 18 से पार्षद का निर्वाचन

(1) निर्वाचन की विवरणी

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	दल से सम्बद्धता (3)	चुनाव चिन्ह (4)	प्राप्त हुए मतों की संख्या (5)
1	अरूण प्रहलाद गोयल	भारतीय जनता पार्टी	कमल	8021
2	भूपेन्द्र पिता लालताप्रसाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ	8226
3	मुकेश चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	181
4	अजय करोतिया	निर्दलीय	पतंग	110

वार्ड में मतदाताओं की कुल संख्या 27321

डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या 16538

नोटा 185

अविधिमान्य (प्रतिपेक्षित) मतों की कुल संख्या

निविदत्त मतों की कुल संख्या

**(2) विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा**

मैं घोषित करता हूँ कि :-

नाम भूपेन्द्र पिता लालताप्रसाद  
पता 77, भगतसिंह नगर, इन्दौर

सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं

स्थान : इन्दौर

तारीख : 19 मई 2016

हस्ताक्षर . . . . .

रिटर्निंग ऑफिसर (न. पा.)

नाम : पी. नरहरि

सील : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन  
अधिकारी, (न. पा.)

जिला इन्दौर.

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.